

ओफियोफैगस कालिंगा

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में, कर्नाटक की कगि कोबरा प्रजाति, जिसे स्थानीय रूप से 'कालिंगा सर्पा (Kaalinga Sarpa)' के नाम से जाना जाता है, को वैज्ञानिक समुदाय में आधिकारिक तौर पर ओफियोफैगस कलिंगा नाम दिया गया है।

- **कगि कोबरा** को पहली बार 1836 में डेनशि प्रकृतवादी थियोडोर एडवर्ड कैटर द्वारा ओफियोफैगस हन्ना (Ophiophagus hannah) के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
 - कगि कोबरा पर 186 वर्षों तक कोई आनुवंशिक अध्ययन नहीं किया गया था।
- भौगोलिक वंशावली के आधार पर कगि कोबरा को **चार अलग-अलग प्रजातियों में पुनर्वर्गीकृत** किया गया है:
 - **उत्तरी कगि कोबरा (ओफियोफैगस हन्नाह)**: यह पाकिस्तान से लेकर पूर्वी चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक पाया जाता है।
 - **सुंडा कगि कोबरा (ओफियोफैगस बंगारस)**: थाईलैंड, मलेशिया और फिलीपींस के कुछ हिस्सों सहित दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है।
 - **पश्चिमी घाट कगि कोबरा (ओफियोफैगस कलिंगा)**: भारत के पश्चिमी घाट में स्थानिक रूप से पाया जाता है।
 - **लूज़ॉन कगि कोबरा (ओफियोफैगस सल्वाटाना)**: केवल फिलीपींस के लूज़ॉन द्वीप पर पाया जाता है।
- कगि कोबरा **दिनचर (दिन के समय सक्रिय)** होते हैं, तथा मुख्य रूप से रैट स्नेक, धामन और अन्य कोबरा जैसे साँपों को खाते हैं।
- कगि कोबरा एकमात्र ऐसा साँप है जो अंडे से बच्चे निकलने तक **घोंसला बनाता है और उसकी रखवाली करता है**।
- इसके वधि का उपयोग **कोब्रोक्सनि और नाइलॉक्सनि** जैसी दर्द निवारक दवाओं के विकास में किया जाता है।

और पढ़ें: [सर्प वधि को नषिकर्य करने वाली एंटीबाँडी](#)